

राष्ट्रीय शारीरिक साक्षरता मशिन

प्रलिस के लयः

संवधान का अनुच्छेद 21, जनहति याचिका ।

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय शारीरिक साक्षरता मशिन, खेल, युवा ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से संवधान के [अनुच्छेद 21](#) के तहत खेलों को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार बनाने की सफारिश करने वाली एक रपिर्ट का जवाब देने को कहा है ।

- इसके अलावा न्यायालय के न्याय मतिर (Court's Amicus Curiae) द्वारा प्रस्तुत रपिर्ट में सुझाव दिया गया है कि "संकीर्ण" शब्दावली 'खेल' को 'शारीरिक साक्षरता' से बदल दिया जाए, यह ऐसा शब्द है जो "वशिव के अग्रणी खेल राष्ट्रों में दृढ़ता से एक अधिकार के रूप में स्थापित है ।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आधार:

- खेल को [मौलिक अधिकार](#) बनाने एवं खेल शक्ति को बढ़ावा देने हेतु इसे [राज्य के नीतिनिदेशक सदिधांतों](#) में शामिल करने के लयि संवधान में संशोधन करने हेतु [जनहति याचिका \(PIL\)](#) दायर की गई थी ।
- इसमें मांग की गई थी कि केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी कार्य को सुवधाजनक बनाने के लयि खेलों को [समवर्ती सूची](#) में स्थानांतरित किया जाना चाहिये (वर्तमान में खेल एक राज्य का वषिय है) ।

रपिर्ट में दयि गए सुझाव:

- रसिपांसबिलिटी मैट्रकिस:** केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शारीरिक साक्षरता मशिन' शुरू किया जाना चाहिये ।
 - मशिन को जमिमेदारियों के मैट्रकिस को लागू करना चाहिये जसिमें पाठ्यक्रम डज़ाइन, अनुपालन नगिरानी और समीक्षा, शकियत नविवरण व आतम-सुधार तंत्र शामिल हों । जो बच्चों को स्कूल सतर पर वभिन्न खेलों में प्रशक्ति कराने हेतु आवश्यक हैं ।
- खेल के लयि समरपति समय:** सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड, आईजीसीएसई सहति सभी स्कूल बोर्डों को यह सुनश्चिति करने के लयि नरिदेशति किया जाना चाहिये कि 2022-2023 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष से प्रत्येक स्कूल दविस में कम-से-कम 90 मनिट खेलने के लयि समरपति हों ।
- मुफ्त में खेल सुवधाएँ:** राज्य सरकारों को यह सुनश्चिति करना चाहिये कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से सभी शक्ति संस्थान अपने गैर-कार्य वाले घंटों में पड़ोस के बच्चों को अपने खेल के मैदानों और खेल सुवधाओं का मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति दें ।
- 'भौतिक साक्षरता नीति' का मसौदा:** शैक्षणिक संस्थानों को 'भौतिक साक्षरता नीति' का मसौदा तैयार करने के लयि 80 दिनों का समय दिया जाना चाहिये ।
 - इस नीति में 'कोई भी बच्चा पीछे न छूटे' दृष्टिकोण के लयि संस्थान की प्रतबिद्धता शामिल होगी ।
 - यह सुनश्चिति करना चाहिये कि संस्थान की शारीरिक साक्षरता गतिविधियों को इस तरह से डज़ाइन और वतिरति किया जाए जो छात्रों के लयि समावेशी हो ।
- आंतरकिस समति:** वशिष्ट मामलों को संबोधति करने के लयि एक आंतरकिस समति बनाने की आवश्यकता है, जो छात्रों को शारीरिक साक्षरता का अधिकार देने के उत्तरदायित्व की वफिलता संबंधी मामलों की जाँच करे ।
- डेशबोर्ड:** देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध खेल मैदानों और खुले स्थानों की मैपिंग व उनके उपयोग की दर, शारीरिक शक्ति शक्तिकों की उपलब्धता तथा योग्यता, पाठ्यक्रम, समय सारणी एवं उपकरणों पर रयिल टाइम डेटा के साथ एक डेशबोर्ड बनाने की आवश्यकता है ।

शारीरिक शक्ति, शारीरिक गतिविधि और खेल का अंतरराष्ट्रीय चार्टर:

- शारीरिक शक्ति, शारीरिक गतिविधि और खेल का अंतरराष्ट्रीय घोषणा-पत्र एक अधिकार आधारित दस्तावेज़ है जो खेल संबंधी नीति और नर्णयन कार्य, मार्गदर्शन और समर्थन करता है।
- यह बिना किसी भेदभाव के सभी के लिये खेल तक समावेशी पहुँच को बढ़ावा देता है। यह खेल कार्यक्रमों और नीतियों को बनाने, लागू करने तथा मूल्यांकन करने वाले सभी कार्यकर्त्ताओं के लिये नैतिक व गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करता है।
- इसे यूनेस्को के आम सम्मेलन (1978) के 20वें सत्र में इसे अपनाया गया।

राष्ट्रीय शक्ति नीति 2020 और खेल:

- [राष्ट्रीय शक्ति नीति 2020](#) में खेलों को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।
- खेल, जसि पहले पाठ्येतर गतिविधि माना जाता था, अब पाठ्यक्रम का हस्सिा माना जा रहा है और खेल में ग्रेडिंग को बच्चों की शक्ति में भी शामिल किया जाएगा।
- उच्च शक्ति संस्थान और खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किये जा रहे हैं। खेल विज्ञान एवं खेल प्रबंधन को स्कूल स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे युवाओं के करियर की संभावनाओं में सुधार होगा तथा खेल अर्थव्यवस्था में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी।

खेल को बढ़ावा देने के लिये योजनाएँ:

- [खेलो इंडिया योजना](#)
- राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता
- अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजिताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष
- भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

स्रोत: द ह्रि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-physical-literacy-mission>

